



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 751 राँची, बुधवार

1 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

29 जनवरी, 2018

संख्या-5/आरोप-1-53/2017-86 (HRMS)-- श्रीमती नमिता नलिनी बाखला, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-776/03) के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं०-2507, दिनांक 19 मई, 2017 तथा विभागीय अधिसूचना सं०-6585, दिनांक 26 मई, 2017 की अवहेलना करते हुए उक्त अधिसूचित पदों पर योगदान नहीं दिया गया एवं ये लम्बे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं ।

Sr No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	NAMITA NALINI BAXLA (BHR/BAS/3581)	श्रीमती बाखला को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।	29/01/2018

2. अतः श्रीमती बाखला को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।
3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया जाता है । जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं०-3838, दिनांक 22 मार्च, 2017 के अनुपालन में उपस्थिती दर्ज करेंगी तथा उपस्थिती के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502
